



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 91)

पटना, सोमवार, 28 मार्च 2011

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

14 मार्च 2011

सं. 1/रा.स्था. (7) नियुक्ति-09/2010 सह-1257—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 48वीं से 52वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग, वर्ग-2 समूह 'ख') के अन्तर्गत सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के साथ वेतनमान रु. 9300-34,800 (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रु. 4800 में राज्य सरकार द्वारा उस पर समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर घोषित आचार संहिता के आलोक में उक्त नियुक्ति/पदस्थापन में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम तथा स्थायी पता	गृह जिला	पत्राचार का पता	संयुक्त मेधाक्रम	जन्मतिथि	आरक्षण कोटि	पदस्थापन पद का कार्यालय एवं स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मिथिलेश कुमार, पिता—श्री वासुदेव सिंह, ग्राम—तेन्दुनी, पो.—तेन्दुनी चौक, थाना—विक्रमगंज, जिला—रोहतास, पिन—802212	रोहतास	स्तम्भ-2 में अंकित पता	214	09 जनवरी 1974	पिछड़ा वर्ग	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बेनीपट्टी अंचल, बेनीपट्टी, जिला—मधुबनी।

1. उक्त अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की संपुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी तथा भुगतान की गयी राशि, प्रशिक्षण पर हुए व्यय के साथ इनसे वसूलनीय होगी।

2. नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि सामान्यतः (2) दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रम के अनुसार होगा।

3. नियुक्त अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919, दिनांक 18 जनवरी 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र प्रभार ग्रहण के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. परीक्ष्यमान अवधि में नवनियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी के मार्ग दर्शन में अपने कार्यालय कार्यों का निष्पादन करेंगे।

5. नव नियुक्त अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे मूलरूप में ही प्रस्तुत कर भार त्यागी/जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्रभार ग्रहण करेंगे अन्यथा संबंधित भार त्यागी पदाधिकारी उन्हें प्रभार नहीं सौंपेंगे।

6. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा बिहार सहकारिता सेवा नियमावली के नियम-37 के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार नव नियुक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ प्रशिक्षण में रहेंगे और इसी दौरान अपने नियंत्री पदाधिकारी के अधीन सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संबद्ध रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एस. के. नेगी,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 91-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>